



Dice (पासा)

Class-3


-: Open Dice खुला पासा :-




4-2
1-3
5-6




A-E
B-D
C-F




4-2
1-3
5-6



2-1
4-3
5-6



4-2
3-5
1-6



4-6
1-2
3-5


Q) Three pictures of similar cubes are given. Numbers 1 to 6 are given on all the faces of the cube. Choose a shape that will be visible when the cube is opened.

(एक समान घन के तीन चित्र दिए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी।)


प्रश्न आकृतियाँ:-



(i)




(ii)




(iii)

3-1-5
~~2~~-2-4
6


उत्तर आकृतियाँ




(a)



(b)



(c)



(d)


Q) Given below are three positions of a dice (X), which of the four unfolded pictures given in the options is of the given dice (X)?

(नीचे एक पासे (X) की तीन स्थितियाँ दी गई हैं, विकल्पों में दिए गए चार प्रसारित चित्रों में से कौन-सा प्रसारित दिए गए पासे (X) का है?)


प्रश्न आकृतियाँ :-



(i)




(ii)




(iii)

2-6-4
~~2-1-3~~
5


उत्तर आकृतियाँ :-




(a)



(b)



(c)



(d)

Q) Given below are three positions of a die (X). A to F is marked on the dice. Which of the four unfolded pictures given in the options is of the given die (X)?

(नीचे एक पासे (X) की तीन स्थितियाँ दी गई हैं। पासे पर A से लेकर F तक अंकित हैं। विकल्पों में दिए गए चार प्रसारित चित्रों में से कौन-सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे (X) का है?)



(i)




(ii)




(iii)

C - B - A
~~C~~ - D - E
 F


उत्तर आकृतियाँ:




(a)



(b)




(c)




(d)

Q) Given below are two positions of a dice. The number 1 to 6 marked on the dice. Four broadcast images are given in the options. If the surfaces of the dice are exposed, what option will they look like?


(नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं। विकल्पों में चार प्रसारित चित्र दिए गए हैं। यदि पासे की सतहों को खोल दिया जाए तो वह किस विकल्प के समान दिखेगा ?)




2 - 1 - 4
~~2~~ - 3 - 5
 6




(a)



(b)



(c)




(d)

Q) A cube is made by folding the given sheet. In the cube thus formed, which of the letter pairs from the options will be on opposite faces?

(दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा?)


⇒ T और Z




Q) A cube is made by folding the given sheet. In the cube thus formed, which of the following pairs of letters will be in opposite directions?

(दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म विपरीत दिशा में होगा?)




⇒ K और A




Q)



2-3
1-4
5-6




Q)




4-6
1-3
5-2


ROJGAR WITH ANKIT




(a)



(b)




~~(c)~~




(d)


Q)




4 — 2
1 — 3
6 — 5




(a)



(b)



(c)



(d)